



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2079]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2017/श्रावण 5, 1939

No. 2079]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2017/SRAVANA 5, 1939

i vkfy; e vkj i kdfrd xj eky;

vf/kl ipuk

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2017

dk- vk- 2359 ¼½—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधिन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 48(अ) तारीख 5 जनवरी, 2017 जो भारत के राजपत्र तारीख 6 जनवरी, 2017 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में महाराष्ट्र राज्य में उरण—चाकण—शिक्रापूर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 27/01/2017 से 10/02/2017 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

वृत्त पत्र
फायर & जल; xM जल; & एगजिक्यूटिव

| तहसील का नाम | ग्राम का नाम | स.नं./ग.नं. | हिस्सा.नं. | क्षेत्रफल | | |
|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|----|-----------|
| | | | | हेक्टर | आर | वर्ग मीटर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| कर्जत | आवळस | 72 | 2 | 00 | 08 | 53 |
| | | 72 | 1A | 00 | 22 | 26 |
| | | 72 | 1B | 00 | 06 | 30 |
| | | | 1C | | | |
| कर्जत | मोठे वेणगाव | 51 | 2B | 00 | 07 | 03 |
| | | 8 | 4A | 00 | 08 | 27 |
| | | | 2 | 00 | 06 | 65 |
| | | | 3 | 00 | 15 | 70 |
| | | 54 | 7 | 00 | 05 | 06 |
| | | 52 | 1 | 00 | 05 | 96 |
| | | 50 | 7 | 00 | 07 | 41 |
| | | 50 | 4 | 00 | 13 | 91 |

[फा. सं. आर -31015/ 2 /2011-ओआर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, 24th July, 2017

S.O. 2359(E).—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 48 (E) dated the 5th January 2017 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 6th January 2017 Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Uran to Chakan –Shikrapur LPG Pipeline Project in the State of Maharashtra by M/s Hindustan Petroleum Corporation Limited ;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 27/01/2017 to 10/02/2017 .

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted his report to the Central Government ;

And whereas the Central Government , after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule is hereby acquired for laying the pipeline ;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government , vest on the date of the publication of this declaration, in M/s. Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District : Raigad

State : Maharashtra

| Name of Tehsil | Name of Village | Survey /Gat No. | Sub-Division No. | Area | | |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|-----|---------|
| | | | | Hectare | Are | Sq.mtr. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Karjat | Awalas | 72 | 2 | 00 | 08 | 53 |
| | | 72 | 1A | 00 | 22 | 26 |
| | | 72 | 1B | 00 | 06 | 30 |
| | | | 1C | | | |
| Karjat | Mothe Vengaon | 51 | 2B | 00 | 07 | 03 |
| | | 8 | 4A | 00 | 08 | 27 |
| | | | 2 | 00 | 06 | 65 |
| | | | 3 | 00 | 15 | 70 |
| | | 54 | 7 | 00 | 05 | 06 |
| | | 52 | 1 | 00 | 05 | 96 |
| | | 50 | 7 | 00 | 07 | 41 |
| | | 50 | 4 | 00 | 13 | 91 |

[F. No. R-31015/2/2011-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.